

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 408]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 अगस्त 2010—श्रावण 16, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2010 (श्रावण 16, 1932)

क्र. 16852-वि.स.-विधान-2010.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 6 अगस्त 2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ.

भोपाल :  
दिनांक 6 अगस्त, 2010.

रामेश्वर ठाकुर  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.”

डॉ. ए. के. पयासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.